

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 फरवरी 2016—माघ 15, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2016

फा. क्र. 17 (ई) 442-2016-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला सतना (म. प्र.) हेतु 65—मैहर विधान सभा उपचुनाव 2016 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को उपचुनाव निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. एल. मुकाती, अवर सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 18/19 जनवरी 2016

क्र. 2989/ई. एस. / 15-25 / सामा. निर्वा. / सेक्टर अधि. / 2016.—विधान सभा क्षेत्र क्र. 65—मैहर के उप निर्वाचन हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2844, दिनांक 13 जनवरी 2016 द्वारा सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र को 34 सेक्टर में विभक्त किया जाकर प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर आफिसर की नियुक्ति की गई है. उपरोक्तानुसार गठित सेक्टर क्षेत्रों में संशोधन करते हुये कुल 45 सेक्टर गठित किये जाकर प्रत्येक सेक्टर क्षेत्र में निम्नानुसार अधिकारियों को सेक्टर आफिसर के कर्तव्यों को निर्वाहन हेतु आदेशित किया जाता है :—

**विधानसभा क्षेत्र क्र. 65 मैहर**

क.	सेक्टर अधिकारी का नाम एवं पद	प्रभार का सेक्टर क्रमांक	सेक्टर में सम्मिलित मतदान केन्द्रों का क्रमांक
1	2	3	4
1	श्री अतुल खरे, सहायक यंत्री, जनपद पंचायत नागौद मो० नं० 9425168137	1	6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 1 कुल 09 मतदान केन्द्र
2	श्री आर०ए० सिंह सहायक यंत्री, जनपद पंचायत रामपुर बघेलान मो० नं० 9425357683	2	12, 13, 14, 15, 11, 10, 17, 16, 18, 19 कुल 10 मतदान केन्द्र
3	श्री समीर श्रीवास्तव सहायक यंत्री, जनपद पंचायत उचेहरा मो० नं० 9407819985	3	27, 26, 28, 24, 25, 22, 23, 20, 21 कुल 09 मतदान केन्द्र
4	श्री अरविन्द गुप्ता सहायक यंत्री, जनपद पंचायत सोहावल मो० नं० 9098899762	4	37, 38, 35, 34, 36 कुल 05 मतदान केन्द्र
5	श्री करुणेश तिवारी, सचिव, कृषि उपज मंडी सतना मो० नं० 9406916909	5	32, 33, 31, 30, 29 कुल 05 मतदान केन्द्र
6	श्री व्ही. आर. सिंह अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग अमरपाटन मो० नं० 9329605822	6	39, 40, 43, 41, 42 कुल 05 मतदान केन्द्र
7	श्री जाग्रत भगत, सहायक यंत्री कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क० 7 सतना	7	45, 44 कुल 02 मतदान केन्द्र
8	श्री अरुण श्रीवास्तव अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग नागौद मो० नं० 9893778585	8	54, 46, 47, 48, 49, 50 कुल 06 मतदान केन्द्र
9	श्री सिद्धार्थ सिंह, सहायक संचालक, सहायक संचालक मत्स्य उद्योग सतना	9	55, 53, 52, 51 कुल 04 मतदान केन्द्र
10	श्री आर. एस. गहरवार, अनुविभागीय अधिकारी फारेस्ट चित्रकूट मो० नं० 9893898218	10	61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60 कुल 10 मतदान केन्द्र
11	श्री वी०के० चौबे अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग मझगाँव मो० नं० 9424371972	11	75, 66, 69, 70, 67, 68 कुल 06 मतदान केन्द्र
12	श्री तरुण कुमार श्रीवास्तव, कार्यपालन यंत्री पुरवा नहर संभाग क० 2	12	73, 74, 71, 72 कुल 04 मतदान केन्द्र

13	श्री एनके0 परते, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उचेहरा मो0 नं0 9425426458	13	79, 80, 81, 82, 76, 77, 78, 152 कुल 08 मतदान केन्द्र
14	श्री नयन सिंह, महिला सशक्तिकरण अधिकारी सतना मो0 नं0 9424762973	14	141, 142, 143, 144, 145, 148, 149, 150, कुल 08 मतदान केन्द्र
15	श्री एस. के. त्रिपाठी, जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सतना 7879429909	15	146, 147, 151 कुल 03 मतदान केन्द्र
16	श्री भरतलाल चौरसिया परि0 यंत्री लोक निर्माण विभाग (पी0आई0यू0) मो0 नं0 9425485083	16	86, 85, 83, 84, कुल 04 मतदान केन्द्र
17	श्री एम. के. नायक, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 7 सतना	17	91, 92, 87, 88, 89, 90 कुल 06 मतदान केन्द्र
18	श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा परि0 यंत्री लोक निर्माण विभाग (पी0आई0यू0) सतना मो0 नं0 9424315068	18	96, 97, 98, 99, 93, 94, 95, 100 कुल 08 मतदान केन्द्र
19	श्री राजेश कछवाह, जिला योजना अधिकारी सतना मो0 नं0 9827363250	19	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 115, 116, 117, 118 कुल 11 मतदान केन्द्र
20	श्री आर. पी. पाल, उपायुक्त सहकारिता सतना मो0 नं0 9425133326	20	108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 121, 122, 126 कुल 10 मतदान केन्द्र
21	श्री आर. बी. पटेल, उपसंचालक उद्यान सतना मो0 नं0 7354423938	21	119, 120, 123, 124, 125, 136, 137, 138, 139 कुल 10 मतदान केन्द्र
22	श्री अयोध्या प्रसाद सुमन उप संचालक कृषि सतना मो0 नं0 8719984018	22	127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 कुल 09 मतदान केन्द्र
23	श्री अविनाश पाण्डेय जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग सतना मो0 नं0 9425357383	23	178, 179, 180, 181 कुल 04 मतदान केन्द्र
24	श्री डी0एस0 राजपूत, कार्यपालन अधिकारी, जिला अन्त्यवसायी सहकारी विकास समिति मर्या0 सतना मो0 9406838160	24	174, 175, 172, 173, 171, 176, 177, कुल 07 मतदान केन्द्र
25	श्री प्रमोद शर्मा उप संचालक मशु चिकित्सा सेवाएं सतना मो0 नं0 9424972082	25	196, 197, 182, 183, 184, कुल 05 मतदान केन्द्र
26	श्री एस0पी0पटेल महाप्रबंधक, जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मो0 9630381450	26	185, 186, 187, 188, 189, 190 कुल 06 मतदान केन्द्र
27	श्री लाजरुस करकेट्टा, ई0ई0 ग्रा0 यां0 सेवा सतना मो0 नं0 9424900188	27	198, 226, 227, 199, 195, 194, कुल 06 मतदान केन्द्र
28	श्री के. एस. कुशावाहा, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा कार्यालय सतना मो0 942542599	28	193, 192, 191, 200, 201, 202 कुल 06 मतदान केन्द्र

29	श्री चन्द्रकान्त मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी कृषि सतना मो० नं० 9827297983	29	204, 205, 208, 203 कुल 04 मतदान केन्द्र
30	श्री पी०के० साहू क्षेत्रीय प्रबंधक, बीज निगम सतना मो० नं० 9826576303	30	224, 225, 220, 221, 228, 223, 223, 206, 207 कुल 09 मतदान केन्द्र
31	श्री उदय लाले कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सतना मो० नं० 9425122835	31	214, 219, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216 कुल 09 मतदान केन्द्र
32	श्री महेन्द्र सिंह कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सतना मो० नं० 9827336968	32	232, 233, 234, 230, 229, 231, 217, 218 कुल 08 मतदान केन्द्र
33	श्री प्रदीप पाठक, महाप्रबंधक प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना सतना मो० नं० 9425434919	33	166, 167, 168, 169, 170, 165, 162, 163, 164 कुल 09 मतदान केन्द्र
34	श्री एम० खरे, कार्यपालन यंत्री, हाऊसिंग बोर्ड सतना मो० नं० 9406912229	34	161, 156, 157, 154, 155, 160, कुल 06 मतदान केन्द्र
35	श्री सुरेश अहिरवार, अनुविभागीय अधिकारी फारेस्ट सतना मो० नं० 9424793426	35	158, 159, 244, 242, 243 कुल 05 मतदान केन्द्र
36	श्री ओ०पी० अस्थाना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामनगर मो० नं० 9425330461	36	235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 कुल 07 मतदान केन्द्र
37	श्री एम०एल० प्रजापति, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचा. रामपुर बघेलान मो० नं० 9009351068	37	249, 245, 246, 247, 248 कुल 05 मतदान केन्द्र
38	श्री के०के० पाण्डेय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोहावल मो० नं० 9425761985	38	257, 258, 259, 254, 255, 256 कुल 06 मतदान केन्द्र
39	श्री व्यासमुनि पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी फारेस्ट मैहर मो० नं० 9424793456	39	252, 253, 251, 250 कुल 04 मतदान केन्द्र
40	श्री एस. बी. सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझगवां मो० नं० 9575482770	40	260, 261, 262, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 284 कुल 10 मतदान केन्द्र
41	श्री बी०एल० परमार, सहायक संचालक, शास० कृषि प्रक्षेत्र मैहर मो० नं० 9755479208	41	285, 286, 283, 287, 288 कुल 05 मतदान केन्द्र
42	श्री शेर सिंह कलेश, सहा० यंत्री म०प्र० गुनि. एवं अधो संरचना विका. मं. सतना मो० नं० 9424634421	42	153, 264, 265, 263, 266, 267, 268, 269, कुल 08 मतदान केन्द्र
43	श्री अशोक राय त्रिपाठी परियोजना संचालक आत्मा सतना मो० नं० 9425470910	43	270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 कुल 07 मतदान केन्द्र
44	श्री अमित कुमार सिंह, जिला रोजगार अधिकारी सतना मो० नं० 9827545352	44	289 कुल 01 मतदान केन्द्र
45	श्री कैलाश प्रसाद त्रिपाठी उप संचालक पंचायत सतना मो० नं० 9977064274	45	290 कुल 01 मतदान केन्द्र

**रिजर्व सेक्टर अधिकारी**

क्र.	नाम अधिकारी	पदनाम	कार्यालय का नाम
1	श्री आर. के. श्रीवास्तव	सहायक यंत्री	म.प्र. गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मण्डल कमांक 2 सतना
2	श्री विमलेश सिंह मो0 9827648015	जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी	खेल एवं युवा कल्याण विभाग जिला सतना
3	श्री जी0सी0 मर्सकोले मो0 9424351916	संभागीय कृषि यंत्री	कृषि अभियांत्रिकी विभाग सतना
4	श्री सुनील रावत मो0 9039091141	अनुविभागीय अधिकारी	वि./यां. भारी संयंत्र जल संसाधन सतना (स्टोर)
5	श्री राजेन्द्र कुमार वांगरे	मुख्य निर्देशक	आंगनवाडी प्रशिक्षण केन्द्र जिला सतना
6	श्री अरुण सिंह चौहान मो0 9977276505	कार्यपालन यंत्री	पुरवा नहर संभाग क. 2 सतना
7	श्री जी. पी. त्रिपाठी मो0 9425185343	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग (सेतु) सतना
8	श्री सुरेन्द्र सिंह मो0 9425836839	परियोजना अधिकारी	बाल विकास परियोजना रामपुर कोटर
9	श्री पुनीत शर्मा मो0 9424316692	परियोजना अधिकारी	एकीकृत बाल विकास परियोजना नगौद क. 2

उपरोक्तानुसार नियुक्त सेक्टर आफिसर्स संलग्न प्रारूप में अपनी व्यक्तिगत जानकारी तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करायेगें, पश्चात् विधानसभा के रिटर्निंग आफिसर से सम्पर्क स्थापित कर उनके निर्देशन में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करेंगे।

“यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।”

संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.